

पृथ्वी इन्नोवेशंस ने अन्य संस्थाओं के साथ दिवा भरपूर सहयोग, स्वच्छता अभियान के तहत, लखनऊ नगर निगम के द्वारा, मानव श्रंखला के आयोजन में

दिनांक- 7 फरवरी 2018 बुधवार, को सुबह के 11 बजे से 12 बजे के बीच

स्थान- 1090 चौराहे से राज स्क्वैरिंग सेक्टर तक, गोमती नगर, लखनऊ
स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शुरू हुए स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 को देखते हुए लखनऊ नगर निगम ने जागरूकता अभियानों की शुरुआत की,

उद्देश्य- मानव श्रंखला का उद्देश्य नागरिकों को एक साथ जोड़कर स्वच्छता का संदेश दिया जाना था / जिसके तहत स्वच्छता के अभियान को और आगे बढ़ाने के लिए मानव श्रंखला के जरिये लोगों को जागरूक किया गया / जिसमें पृथ्वी इन्नोवेशंस की टीम ने पूरे जोश के साथ बढ़ चढ़ कर सहयोग या /



कार्यक्रम में नगर निगम के कर्मचारी एवं विभिन्न समाजिक संस्थाओं, और विभिन्न स्कूलों व मदरसों के बच्चों ने भाग लिया /

पृथ्वी इन्नोवेशंस ने बच्चों के साथ मिलकर "हम सबने यह ठाना हूँ लखनऊ को स्वच्छ बनाना हूँ"

"गीला- सूखा कूड़ा अलग कर, लखनऊ को स्वच्छ बनाएँगे मिलकर"
"हम सब अपना कर्तव्य निभाएँगे, गन्दा होने से बचाएँगे" जल नारे लगाकर, सबको शहर को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया /

मानव श्रंखला को सम्बोधित करते हुए अपर नगर आयुक्त श्री पी.के.श्रीवास्तव ने कहा कि लखनऊ को साफ़ सुथरा रखने हेतु सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए और इस कार्य में नगर निगम को सहयोग दें / पर्यावरण अभियंता पंकज भूषण ने कूड़े को जलाने व सड़क पर फेंकने से रोकने और खुले में शौच पर रोक लगाने जल नारों पर जोर देते हुए अपनी बात रखी /



इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में पृथ्वी इन्नोवेशंस की टीम की तरफ से एक पहल की भी शुरुआत की गयी, कार्यक्रम के अंत में जलपान के बाद वहाँ उपस्थित सभी लोगों के द्वारा इकट्ठा किये गए कूड़े को अलग अलग किया गया और वहाँ उपस्थित सभी लोगों को बताया गया कि इसमें मिले बोतल और प्लास्टिक से हम लोग इसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और अपने स्तर से कूड़े को काम कर सकते हैं /